

INTERNAL TEST 2 (IT2) – DECEMBER 2023

FITTER 1ST YEAR SHIFT-1

Trainee Name..... Shift..... Roll No.....

Sign. Invigilator.....

Note- All questions are compulsory.

Read and attempt all questions carefully.

Question will be treated as wrong if answer is not clear.

Trade Theory- /20 Employability Skill- /20 WCS- /20 ED- /20

Sign. Examiner.....

SECTION-A (TRADE THEORY)

1. निम्न में से सुनहरा काल (Golden hour) का अवधि है-
- a) 50 मिनट
 - b) 40 मिनट
 - c) 30 मिनट
 - d) 60 मिनट
2. चतावनी चिन्ह के पृष्ठभूमि का रंग होता है-
- a) हरा
 - b) पीला
 - c) लाल
 - d) काला
3. आग के किस वर्ग में विद्युत उपकरण शामिल है-
- a) वर्ग 'D'
 - b) वर्ग 'B'
 - c) वर्ग 'A'
 - d) वर्ग 'C'
4. 'PPE' का पूर्ण रूप है-
- a) Personal Perfect equipment
 - b) Personal Protective equipment
 - c) Personal Perfect effect
 - d) इनमें से कोई नहीं
5. कृतिम ध्वनि की किस विधि में रोगी को मुख - से मुख द्वारा साँस प्रदान की जाती है-
- a) शेफर विधि
 - b) ल्राबोर्ड विधि
 - c) सिलवेस्टर विधि
 - d) इनमें से कोई नहीं
6. 1 गज कितने इंच के बराबर है-
- a) 48 इंच
 - b) 32 इंच
 - c) 24 इंच
 - d) 36 इंच
7. 1 सूत में कितना मिलीमीटर होता है-
- a) 3.00 mm
 - b) 3.175 mm
 - c) 3.50 mm
 - d) 25.40 mm
8. डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है-
- a) वृत्त और चाप बनाने में
 - b) माप को स्थानांतरित करने में
 - c) वृत्त और ब दोनों
 - d) इनमें से कोई नहीं
9. जैनी कैलीपर का अन्य नाम है-
- a) हर्माक्रोमाइड कैलीपर
 - b) ऑड लेग कैलीपर
 - c) वृत्त और b दोनों
 - d) इनमें से कोई नहीं
10. वर्नियर हाईट गेज में कौन-सा स्क्राइबर लगा होता है-
- a) लैंड्रेट्र एक्स्प्रेस
 - b) स्ट्रेट्र एक्स्प्रेस
 - c) ऑफ सेट स्क्राइबर
 - d) इनमें से कोई नहीं
11. बंच बाईस का 'बाक्स-नट' किस मैट्रियल का बना होता है-
- a) माइल्ड स्टील
 - b) हाई कार्बन स्टील
 - c) ग्रन मेटल
 - d) इनमें से कोई नहीं
12. भरफोनप्स्टेन किस अपरेशन फोनलिंड बद्धता है-
- a) मेजरिंग
 - b) मार्किंग
 - c) कटिंग
 - d) होल्डिंग
13. निम्न में से कौन- सी वाईस बहु- उत्पादन (Mass-production) के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाती है-
- a) लेग वाईस
 - b) पाइप वाईस
 - c) निचक रिलीजिंग वाईस
 - d) पिन वाईस
14. हैमर का वर्गीकरण किया जाता है-
- a) पिन के आकार से
 - b) वजन से
 - c) वृत्त और b दोनों
 - d) हैंडल की लम्बाई से
15. हैमर की किस भाग को हाई व टेम्पर किया जाता है-
- a) फेस को
 - b) आई होल को
 - c) चीक को
 - d) वेज
16. हैमर किस मैट्रियल का बना होता है-
- a) कास्ट स्टील
 - b) कार्बन स्टील
 - c) माइल्ड स्टील
 - d) वृत्त और b दोनों
17. धातु चादर कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला हैमर कौन-सा है-
- a) बाल पिन हैमर
 - b) क्रास पिन हैमर
 - c) मैलेट
 - d) स्लेज हैमर

- 18. स्लेज हैमर के सम्बन्ध में कौन-सा कथन सत्य है-**
- इसका वजन 2 kg से 10 kg तक होता है
 - इसके हैण्डल की लम्बाई 600 mm से 900 mm होती है
 - इसका प्रयोग प्रायः भारी कार्यों में करते हैं।
 - उपर्युक्त सभी
- 19. बड़े साइज के जाबों को पकड़ने के लिए किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है-**
- लांग नोज प्लायर
 - कॉम्बिनेशन प्लायर
 - साइड कटिंग प्लायर
 - स्लिप ज्वाइंट प्लायर
- 20. किस प्लायर का प्रयोग कारपेटरी शॉप में किया जाता है-**
- स्पेसर प्लायर
 - स्लिप ज्वाइंट प्लायर
 - साइड कटिंग प्लायर
 - इनमें से कोई नहीं
- 21. स्पेनर किस मैटेरियल का बना होता है-**
- माइल्ड स्टील
 - एलॉय स्टील
 - हाई कार्बन स्टील
 - कास्ट आयरन
- 22. स्पेनर का साइज दर्शाया जाता है-**
- नंबर से
 - अक्षर से
 - a और b दोनों
 - इनमें से कोई नहीं
- 23. स्पेनर के एक सेट में कितने साइज तक के स्पेनर उपलब्ध होते हैं -**
- 10 mm से 25 mm
 - 8 mm से 32 mm
 - 16 mm से 32 mm
 - 6 mm से 32 mm
- 24. स्पेनर के एक सेट में कितने पीस होते हैं -**
- 8
 - 12
 - 14
 - 10
- 25. रिंग स्पेनर के एक सिरे के अन्दर कितने खांचे कटे होते हैं-**
- 10
 - 8
 - 12
 - 6
- 26. किस स्पेनर में मुवेल जबड़ा उपस्थित होता है-**
- एड्जस्टेबल स्पेनर
 - रिंग स्पेनर
 - सॉकेट स्पेनर
 - ओपन इंडेड स्पेनर
- 27. किस स्पेनर में 'टॉमी होल' उपस्थित होता है-**
- एड्जस्टेबल
 - सॉकेट स्पेनर
 - रिंग स्पेनर
 - इनमें से कोई नहीं
- 28. निम्न में से कौन-सा स्पेनर षष्ठभुज आकार में खोखला पाइप होता है-**
- रिंग स्पेनर
 - पिन स्पेनर
 - डबल इंडेड स्पेनर
 - ट्रिबुलर स्पेनर
- 29. एड्जस्टेबल स्पेनर का प्रयोग करते समय एड्जस्टेबल जबड़े को रखा जाता है -**
- बल लगाने के विपरीत दिशा में
 - जिधर को बल लगाया जा रहा हो
 - a और b दोनों
 - इनमें से कोई नहीं
- 30. स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है-**
- शैंक की लम्बाई से
 - ब्लेड या टिप की चौड़ाई से
 - a और b दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

- 31. किस स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड पर चार फ्लुट्स कटे होते हैं-**
- स्टैण्डर्ड स्क्रू ड्राइवर
 - हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर
 - आफसेट स्क्रू ड्राइवर
 - फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर
- 32. बड़े कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्क्रू ड्राइवर है-**
- आफसेट स्क्रू ड्राइवर
 - फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर
 - हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर
 - इनमें से कोई नहीं
- 33. निम्न में से कौन-सा कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं है-**
- स्क्वायर हैड
 - रिंग हैड
 - मॉफेस प्लेट ड्राइवर
 - प्रोट्रैक्टर हैड
- 34. पैरेलल ब्लॉक के सम्बन्ध में कौन-सा कथन असत्य है-**
- यह दो ग्रेडों में पाया जाता है
 - ग्रेड A की परिशुद्धता अधिक होती है
 - ग्रेड B का उपयोग टूल रूम में करते हैं
 - यह प्रायः जोड़े में पाये जाते हैं
- 35. 'मार्किंग ऑफ टेबल' की ऊँचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए-**
- 50 सेमी. – 75 सेमी.
 - 75 सेमी. – 90 सेमी.
 - 60 सेमी. – 100 सेमी.
 - इनमें से कोई नहीं
- 36. चिजेल के किस भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है-**
- हैड को
 - बाड़ी या शैंक को
 - कटिंग एज को
 - इनमें से कोई नहीं
- 37. फ्लैट चिजेल के कटिंग एज की चौड़ाई होती है-**
- 15 - 30 (mm)
 - 16 - 32 (mm)
 - 10 - 20 (mm)
 - 12 - 15 (mm)
- 38. बियरिंगों में तेल माग (Oil ways) काटने में प्रयोग होने वाली चिजेल है-**
- फ्लैट चिजेल
 - गऊ - मुख छेनी
 - हाफ राउंड चिजेल
 - वेब चिजेल
- 39. चिपिंग करते समय चिजेल के झुकाव कोण का प्रभाव पड़ता है-**
- अवकाश कोण पर
 - रेक कोण पर
 - a और b दोनों
 - किसी कोण पर नहीं
- 40. चिजेल का कर्तन कोण (नोंक कोण) निर्भर करता है-**
- चिपिंग करने के तरीके पर
 - काटी जाने वाली धातु के मैटेरियल पर
 - चिजेल के साइज पर
 - इनमें से कोई नहीं

SECTION-B (EMPLOYABILITY SKILLS)

- 41. The plural of the word Furniture.....**
- Furniture का बहुवचन है.
- furnitures
 - furnituries
 - furniturez
 - furniture
- 42. Which one is a brain of computer?**
- कम्प्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है?
- CPU
 - Keyboard
 - Monitor
 - Hard Disk

5) F*

- Which one is Not a vowel?**
कौन सा एक स्वर नहीं है ?
a) a b) f c) e d) i
- 44. Which one is a cardinal number?**
कौन सा एक कार्डिनल संख्या है ?
a) 10th b) X c) 10 d) V
- 45. Which one is an exclamatory sentence?**
कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है?
a) Your house is beautiful.
आपका घर सुन्दर है.
b) It is a beautiful house.
यह एक सुन्दर घर है.
c) Is it a beautiful house?
वह यह एक सुन्दर घर है?
d) what a beautiful house it is!
यह कितना सुन्दर घर है !
- 46. Which one is not a Conjunction?**
कौन सा एक संयोजन नहीं है ?
a) And b) ~~or~~ c) But d) on
- 47. Fill in the blank with Proper pronoun "I made this cake....."**
उचित सर्वनाम के साथ इस स्थान पर "मैंने यह केक..... बनाया"
a) itself b) yourself..
c) himself d) myself
- 48. Which one is the naming word?**
निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण शब्द है ?
a) Walk चलना b) Chennai चेन्नई
c) Red लाल रंग d) slowly धीरे धीरे
- 49. Which of these is not an online job search platform?**
इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफार्म नहीं है ?
a) Snapchat b) LinkedIn
c) Indeed d) Glassdoor
- 50. Which one is a Web browser?**
कौन एक वेब ब्राउज़र है ?
a) Google b) Hotmail
c) Outlook Express d) Facebook
- 51. Which shortcut is used to save a word file in MS office?**
MS office में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है?
a) Alt+S b) Ctrl+S
c) Ctrl+N d) Ctrl+B
- 52. Which device is used to connect telephone lines to a PC?**
PC से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है?
a) Monitor b) Printer
~~c) Modem~~ d) Modem
- 53. In Word document, the text is printed lengthwise? किस ओरिएंटेशन में, टेक्स्ट लम्बाई वर प्रिंट होता है ?**
a) Margin b) Landscape
c) Width d) ~~Portrait~~
- 54. Which one is a social networking site?**
कौन एक सोशल नेटवर्किंग साईट है ?
~~a) Facebook~~ b) ~~MySpace~~
c) Lotus notes d) Outlook express
- 55. In Excel, the intersection of a row and column is called a.....**
Excel में किसी रो (पंक्ति) और कॉलम (स्तम्भ) के इंटरसेक्शन को.....
a) Label b) ~~Cell~~
c) Worksheet d) Square
- 56. Which one is Not an article?**
निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है ?
a) a b) the c) in d) an
- 57. Which one is the disadvantage of social networking sites?**
सोशल नेटवर्किंग साईट्स का नुकसान कौन सा है ?
a) Instant communication तुरन्त बातचीत
b) Access to information जानकारी तक पहुंचना
c) online marketing for business व्यापार के लिए विपणन
~~d) Make addictive बुरी आदत होना~~
- 58. A wireless technology that connects a laptop to the internet is called....**
एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है-
~~a) Wi-Fi~~ b) Source network
c) Bluetooth d) Desktop
- 59. Which one of the following is an Action word?**
निम्नलिखित में से कौन सा Action word है ?
~~a) Sleep~~ b) Agra c) Table d) Car
- 60. Which of the following is not a naming word?**
a) Uttar Pradesh b) Play
c) Mumbai d) Lucknow

SECTION- C (W.C.S)

61. 30, 36, 48 और 60 का L.C.M होगा -
 a) 60 b) 120 c) 240 d) 720
62. $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{5}{12}$ को जोड़िये -

a) $2\frac{1}{24}$ b) $1\frac{1}{24}$ c) $1\frac{1}{12}$ d) $2\frac{2}{12}$

$\frac{33}{14} \times 12\frac{3}{5} \div 13\frac{1}{5}$ को सरल करें -

a) $1\frac{1}{12}$ b) $2\frac{1}{15}$ c) $2\frac{3}{5}$ d) $2\frac{1}{4}$

64. $(6+2)(9-5)(2+1) =$ _____
 a) 96 b) 69 c) 36 d) 26

65. 0.625 को सामान्य भिन्न में बदलें -
 a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{6}{8}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{7}{8}$

66. $\frac{1}{8}$ को दशमलव भिन्न में बदलें -
 a) 0.125 b) 0.215 c) 0.521 d) 0.152

67. भाग दीजिये- $2\frac{3}{4} \div \frac{3}{5}$
 a) $4\frac{7}{12}$ b) $6\frac{1}{20}$ c) $4\frac{3}{12}$ d) $15\frac{5}{12}$

68. $\frac{2}{3} \div \frac{3}{4}$ को हल करें -
 a) $\frac{8}{9}$ b) $\frac{16}{9}$ c) $\frac{8}{6}$ d) $\frac{9}{6}$

69. 0.1×0.01 का मान होगा -
 a) 0.1 b) 0.01 c) 0.001 d) कोई नहीं

70. दो संख्याओं का गुणनफल 144 है यदि संख्या का म.स. 8 हो तो संख्याओं का ल. स. होगा -
 a) 18 b) 1152 c) 136 d) 152

71. $0.025 \times 5.25 = ?$
 a) 1.3125 b) 13125 c) 0.13125 d) 0.65625

72. गुणा करें- $0.6 \times 0.6 \times 0.6 = ?$
 a) 0.216 b) 0.0216 c) 2.16 d) 0216

73. $\frac{16}{18} \times 18\frac{1}{2} - 6\frac{3}{4}$ का मान होगा -
 a) $\frac{787}{68}$ b) $\frac{778}{68}$ c) $\frac{768}{68}$ d) $\frac{725}{68}$

74. निम्नलिखित समीकरण का परिणाम क्या होगा-
 13 - [2 - {30 - (5)² + (4/2)}]
 a) 0 b) 4 c) 8 d) 122

75. $7\frac{17}{24}$ से $5\frac{5}{12}$ को घटायें -
 a) $1\frac{12}{24}$ b) $2\frac{7}{24}$ c) $5\frac{2}{24}$ d) $1\frac{7}{24}$

76. $2\frac{1}{2}$ और $3\frac{1}{2}$ का गुणनफल क्या होगा -

a) 6.5 b) 7.75 c) 8.75 d) 8.12

77. $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \div \frac{1}{3}$ किसके बराबर होता है-
 a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) $\frac{1}{4}$

78. $\frac{3}{4} \times \frac{5}{7} \times \frac{11}{3} \div \frac{2}{4} \times \frac{14}{6} = ?$ सरल करें -

a) $\frac{168}{98}$ b) $\frac{165}{98}$ c) $\frac{162}{98}$ d) $\frac{160}{98}$

79. 5.7349, 0.09, 2.146, 0.5, 66, 109.003, 8.05712
 का योग ज्ञात कीजिए -
 a) 191.53102 b) 139.51302
 c) 391.53102 d) 149.51302
80. दो संख्याओं का गुणफल 4107 है यदि उनका म.स. 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी -
 a) 101 b) 107 c) 111 d) 185

SECTION- D (ENGINEERING DRAWING)

81. अक्षरण प्रायः गाक्सग्रिड का पेन्सिल से जीता है -
 a) 7 H b) 6 B c) 3 H d) H
82. IS विशिष्टता के अनुसार 210×297 मिमी. माप का परिष्कृत रेखाचित्र पन्ना, किस ग्रेड के नाम से जाना जाता है-
 a) A₅ b) A₄ c) A₀ d) A₂
83. प्लास्टिक, चिकित्सा, सेंट्रल डिपोजिटिंग से स्फीज़ा है -
 a) 4 H b) 3 H c) 4 B d) HB
84. फ्रेंच कर्व का उपयोग, किस प्रकार की रेखाएं बनाने में किया जाता है-
 a) क्षैतिज b) वाक्र c) उधर्धार d) समान्तर
85. ऑब्जैक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेन्सिल से बनाई जाती है-
 a) HB b) 2H c) 4H d) 7B
86. ड्राइंग पेन्सिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है-
 a) HB b) 9H c) B d) 6B
87. ड्राइंग पेन्सिल में सबसे नर्म ग्रेड कौन सी है-
 a) B b) HB c) 7H d) 7B
88. फाइल ड्राइंग किस ग्रेड की पेन्सिल से बनाई जाती है-
 a) 5 B b) 3 H c) B d) 8 H
89. ड्राइंग आउट लाइन किस ग्रेड की पेन्सिल से बनाई जाती है-
 a) 4 H b) B c) 7 B d) 2 H
90. मिनी ड्राफ्टर का उपयोग इनमें से किसके रूप में नहीं किया जाता है-
 a) सैट - स्क्वायर b) फ्रेंच कर्व c) चांदा d) पैमाना

ALL THE BEST